

# इक बगल में चाँद होगा (हिन्दी स्वरलिपि और ताल)

## मुखड़ा

**रूपक** हर सात मात्रे पर दोहरा रहा है

| 1              | 2           | 3            | 4             | 5            | 6             | 7            |
|----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| १              | २           | ३            | ४             | ५            | ६             | ७            |
| १<br>इ<br>स    | २<br>क<br>स | ३<br>ब<br>स  | १<br>ग<br>ग   | २<br>ल<br>ग  | १<br>में<br>प | २<br>स<br>-  |
| १<br>चाँ<br>ध  | २<br>स<br>ध | ३<br>द<br>ध  | १<br>हो<br>ध  | २<br>स<br>प  | १<br>गा<br>प  | २<br>स<br>ध  |
| १<br>इ<br>न    | २<br>क<br>न | ३<br>ब<br>न  | १<br>ग<br>ध   | २<br>ल<br>ध  | १<br>में<br>प | २<br>स<br>प  |
| १<br>रो<br>प   | २<br>स<br>- | ३<br>टि<br>प | १<br>याँ<br>प | २<br>स<br>-  | १<br>ह<br>सं  | २<br>म<br>सं |
| १<br>चाँ<br>सं | २<br>स<br>न | ३<br>द<br>सं | १<br>पे<br>सं | २<br>स<br>गं | १<br>ह<br>रं  | २<br>म<br>सं |
| १<br>चाँ<br>सं | २<br>स<br>न | ३<br>द<br>न  | १<br>पे<br>न  | २<br>स<br>-  | १<br>रो<br>न  | २<br>स<br>ध  |
| १<br>टी<br>प   | २<br>स<br>ध | ३<br>की<br>प | १<br>चा<br>प  | २<br>स<br>-  | १<br>द<br>प   | २<br>र<br>प  |
| १<br>डा<br>प   | २<br>स<br>ध | ३<br>ल<br>प  | १<br>के<br>ग  | २<br>स<br>र  | १<br>सो<br>र  | २<br>स<br>ग  |
| १<br>जा<br>ग   | २<br>स<br>- | ३<br>वँ<br>र | १<br>गे<br>स  | २<br>स<br>-  | १<br>औ<br>स   | २<br>र<br>र  |

|              |             |             |              |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| १<br>नी<br>स | २<br>s<br>न | ३<br>द<br>न | १<br>से<br>र | २<br>s<br>- | १<br>क<br>र | २<br>ह<br>र |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|

|                |             |              |              |             |              |             |
|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| १<br>द्वं<br>र | २<br>s<br>- | ३<br>गे<br>र | १<br>लो<br>म | २<br>s<br>- | १<br>री<br>म | २<br>s<br>- |
|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|

|             |             |              |              |             |              |             |
|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| १<br>क<br>म | २<br>ल<br>म | ३<br>सु<br>म | १<br>ना<br>म | २<br>s<br>- | १<br>ने<br>प | २<br>s<br>ग |
|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|

|             |             |                |              |             |             |             |
|-------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| १<br>आ<br>ग | २<br>s<br>- | ३<br>द्वं<br>ग | १<br>गे<br>ग | २<br>s<br>- | १<br>औ<br>स | २<br>र<br>र |
|-------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|

|              |             |             |              |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| १<br>नी<br>न | २<br>s<br>न | ३<br>द<br>न | १<br>से<br>र | २<br>s<br>- | १<br>क<br>र | २<br>ह<br>र |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|

|                |             |              |              |             |              |             |
|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| १<br>द्वं<br>र | २<br>s<br>- | ३<br>गे<br>र | १<br>लो<br>र | २<br>s<br>- | १<br>री<br>र | २<br>s<br>- |
|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|

|             |             |              |              |             |              |             |
|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| १<br>क<br>र | २<br>ल<br>र | ३<br>सु<br>र | १<br>ना<br>र | २<br>s<br>- | १<br>ने<br>र | २<br>s<br>स |
|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|

|             |             |                |              |             |        |        |
|-------------|-------------|----------------|--------------|-------------|--------|--------|
| १<br>आ<br>स | २<br>s<br>- | ३<br>द्वं<br>स | १<br>गे<br>स | २<br>s<br>- | १<br>- | २<br>- |
|-------------|-------------|----------------|--------------|-------------|--------|--------|

प्रतीक माहेश्वरी  
प्रतीक माहेश्वरी  
प्रतीक माहेश्वरी

## अन्तरा

| 1             | 2            | 3             | 4             | 5           | 6             | 7           |
|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| १             | २            | ३             | ४             | ५           | ६             | ७           |
| १<br>अ<br>सं  | २<br>ब<br>सं | ३<br>न<br>सं  | १<br>ते<br>न  | २<br>स<br>प | १<br>री<br>प  | २<br>स<br>- |
| १<br>सि<br>सं | २<br>स<br>सं | ३<br>कि<br>सं | १<br>यों<br>न | २<br>स<br>प | १<br>पे<br>प  | २<br>स<br>- |
| १<br>को<br>सं | २<br>स<br>सं | ३<br>ई<br>सं  | १<br>रो<br>सं | २<br>स<br>- | १<br>ने<br>सं | २<br>स<br>- |
| १<br>आ<br>सं  | २<br>स<br>-  | ३<br>ए<br>सं  | १<br>गा<br>सं | २<br>स<br>- | १<br>स<br>-   | २<br>स<br>- |
| १<br>को<br>न  | २<br>स<br>सं | ३<br>ई<br>न   | १<br>रो<br>ध  | २<br>स<br>- | १<br>ने<br>ध  | २<br>स<br>- |
| १<br>आ<br>ध   | २<br>स<br>न  | ३<br>ए<br>ध   | १<br>गा<br>प  | २<br>स<br>- | १<br>स<br>-   | २<br>स<br>- |
| १<br>या<br>स  | २<br>स<br>-  | ३<br>द<br>स   | १<br>र<br>र   | २<br>ख<br>र | १<br>प<br>ग   | २<br>र<br>ग |
| १<br>को<br>स  | २<br>स<br>-  | ३<br>ई<br>स   | १<br>अ<br>र   | २<br>न<br>र | १<br>लो<br>ग  | २<br>स<br>- |
| १<br>नी<br>ग  | २<br>स<br>-  | ३<br>न<br>ग   | १<br>हीं<br>ग | २<br>स<br>र | १<br>वृ<br>र  | २<br>स<br>स |
| १<br>ला<br>स  | २<br>स<br>-  | ३<br>ए<br>स   | १<br>गी<br>स  | २<br>स<br>- | १<br>स<br>-   | २<br>स<br>- |

|    |   |   |    |    |    |   |
|----|---|---|----|----|----|---|
| १  | २ | ३ | १  | २  | १  | २ |
| आ  | s | ए | गी | s  | तो | s |
| स  | - | स | रु | -  | ग  | - |
| १  | २ | ३ | १  | २  | १  | २ |
| फि | र | क | हा | s  | नी | s |
| स  | - | स | रु | रु | ग  | - |
| १  | २ | ३ | १  | २  | १  | २ |
| औ  | s | र | कु | छ  | हो | s |
| ग  | - | ग | ग  | रु | रु | स |
| १  | २ | ३ | १  | २  | १  | २ |
| जा | s | ए | गी | s  | s  | s |
| स  | - | स | स  | -  | -  | - |

इक बगल में चाँद होगा की सरगम और पूर्ण बोल के लिए **यहाँ** जाएँ

किसी भी सुझाव या अन्य किसी गीत के स्वरों/ताल के लिए कृपया  
<https://pratikhmaheshwari.in> पर जा कर संपर्क करें या विडियो के नीचे अपनी  
 टिप्पणी छोड़ें।

इन पंक्तियों को एक ही प्रकार से गाया जाएगा:

- > इक बगल में चाँद होगा, इक बगल में रोटियाँ
- > इक बगल में नींद होगी, इक बगल में लोरियाँ
- १ > इक बगल में खनखनाती सीपियाँ हो जाएँगी
- > इक बगल में कुछ रुलाती सिसकियाँ हो जाएँगी
- > होनी और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जाँ
- > हद से ज़्यादा ये ही होगा की यहीं मर जायेंगे
- > हम चाँद पे रोटी की चादर डालकर सो जायेंगे
- २ > हम सीपियों में भर के सारे तारे छू के आयेंगे
- > हम मौत को सपना बता कर उठ खड़े होंगे यहीं
- > और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आयेंगे
- ३ > और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूँ बहलाएँगे
- > और होनी को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जायेंगे